

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना सतर्कता व चिकित्सा उपायों को लेकर वेबीनार का आयोजन

जयपुर 5 मई राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आज कोरोना के व्यापक प्रभाव में युवाओं विशेष रूप से छात्रों वह समाज के अन्य वर्गों में बचाव व इससे जुड़ी आवश्यक चिकित्सा को लेकर एक वेबीनार का आयोजन किया गया इस वेबीनार में विश्वविद्यालय के एलोपैथी, होम्योपैथी व आयुर्वेद से जुड़े हुए चिकित्सकों द्वारा कोरोना के प्रारंभिक लक्षणों वह इसके पश्चात उत्पन्न होने वाली गंभीर स्थिति से निपटने से जुड़ी सावधानियों वह आवश्यक उपायों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई चिकित्सकों का यह विचार था कि इस बीमारी के प्रारंभिक लक्षणों से विचलित होने के बजाय दृढ़ता के साथ आवश्यक चिकित्सकीय उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है , एलोपैथी होम्योपैथी वह आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धतियों में इस बीमारी से निपटने के सभी आवश्यक उपायों का उल्लेख इस अवसर पर चिकित्सकों ने किया ,चिकित्सकों का यह मानना था कि बीमारी के प्रारंभिक लक्षणों के साथ ही उपचार में सतर्कता बरतने पर इसकी गंभीरता को रोका जा सकता है विश्वविद्यालय एलोपैथिक चिकित्सक डॉ श्याम मित्तल होम्योपैथ डॉक्टर सीनू गुप्ता आयुर्वेद के डॉक्टर रूप राज भारद्वाज ने इस अवसर पर विस्तृत रूप से संक्रमण से जुड़ी गंभीरता वह चिकित्सा उपायों की जानकारी दी कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन के निर्देशन से आयोजित इस वेबीनार में विश्वविद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों वह छात्रों ने भाग लिया इस वेबीनार का संयोजन प्रो मधु जैन द्वारा किया गया।

उल्लेखनीय कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय इस संक्रमण में जनजागृति के लिए समय समय पर वेबिनार का आयोजन करेगा , इसी के आधार पर विश्वविद्यालय में यह पहली वेबीनार आज आयोजित की गई है।

डॉ भूपेंद्र सिंह शेखावत

जनसंपर्क अधिकारी

राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर